

# Mic

## Chapter 1

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

יְהוֹכָדָה यह्जिक्य्याह H2396	אַחָז आहाज़ H0271	יֹתָם योताम H3147	בֵּימֵי दिनों-में H3117	הַמִּרְשָׁתִּי मीरशती-के H4183	מִיכָה मीका H4318	אֶל- को- H0413	הָיָה हुआ H1961	אֲשֶׁר जो H1961	וַיְהִי यहोवा-का H3068	דְּבָרֵי वचन- H1697	1
			וַיְרוּשָׁלַם और-यरूशलेम H3389	שְׁמֵרוֹן शोमरोन H8111	עַל- पर- H1961	הָיָה देखा H2372	אֲשֶׁר- जो- H1961	וַיְהִי यहूदा-के H3063	מַלְכֵי राजाओं-के H4428		

यहोवा का वह वचन जो राजा योताम, आहाज़ और हिजकिय्याह के समय में मीका को प्राप्त हुआ। ये पुरूष यहूदा के राजा थे। मीका मोरेशेती से था। मीका ने शोमरोन और यरूशलेम के बारे में ये दर्शन देखे।

בְּכֶם तुम-में H3069	וַיְהִי यहोवा H0136	אֲדֹנָי आदोनाई H0136	וַיְהִי और-हो H1961	וּמְלֶאכָה और-उस-की-परिपूर्णता H4393	אֲרֶץ पृथ्वी H0776	הַקְּשִׁיבִי कान-लगाओ H7181	כָּל־ सब H3605	עַמִּים लोगो H3605	שְׁמַעוּ सुनो H8085	2	
					קְדָשׁוֹ अपनी-पवित्रता-के H6944	מִהַיְכַל मंदिर-से H1964	אֲדֹנָי आदोनाई H0136	לְעַד गवाह-के-लिए H5707			

हे लोगों, तुम सभी सुनो! हे धरती और जो कुछ भी धरती पर है, सुन। मेरा स्वामी यहोवा इस पवित्र मन्दिर से जायेगा। मेरा स्वामी तुम्हारे विरोध में एक साक्षी के रूप में आयेगा।

(בְּמַתִּי) ऊँचाइयों H1116	[בְּמַתִּי] [ऊँचाइयों] H1116	עַל- पर- H1116	וְדַרְךָ और-चलेगा H1869	וַיֵּרֶד और-उतरेगा H3381	מִמְקוֹמוֹ अपने-स्थान-से H4725	יֵצֵא निकलता-है H3318	וַיְהִי यहोवा H3068	הִנֵּה देखो H2009	כִּי- क्योंकि- H2009	3	
						אֲרֶץ पृथ्वी-की H0776					

देखो, यहोवा अपने स्थान से बाहर जा रहा है। वह धरती के ऊँचे स्थानों पर चलने के लिये उतर कर नीचे आ रहा है।

כַּמָּיִם पानी-की-तरह H4325	הָאֵשׁ आग H0784	מִפְּנֵי सामने-से H6440	כְּדֹנָג मोम-की-तरह H1749	וַתִּבְקָעוּ फटेगी H1234	וַהֲעֵמְקִים और-घाटियाँ H6010	תַּחְתָּיו उस-के-नीचे H8478	הַהָרִים पहाड़ H2022	וְנִמְסוּ और-पिघलेंगे H4549	4		
							בְּמִוְרָד ढलान-पर H4174	מִגְרִים बहाए-गए H5064			

परमेश्वर यहोवा के पांव तले पहाड़ पिघल जायेंगे, घाटियाँ चरमरा जायेंगी। जैसे आग के सामने मोम पिघल जाता है, जैसे ढलान से पानी उतरता हुआ बहता है।

יַעֲקֹב याकूब-का H3290	פָּשַׁע अपराध H6588	מִי- कौन- H4310	יִשְׂרָאֵל इसाएल-के H3478	בֵּית घराने H3478	וּבְחַטָּאוֹת और-पापों-के-कारण H3478	זֹאת यह H2063	כָּל- सब- H3605	יַעֲקֹב याकूब-के H3290	בְּפָשַׁע अपराध-के-कारण H6588	5	
			יְרוּשָׁלַם यरूशलेम H3389	הָלֹא क्या-नहीं H3808	וַיְהִי यहूदा-के H3063	בְּמִוְרָד ऊँचे-स्थान H1116	וּמִי और-कौन H4310	שְׁמֵרוֹן शोमरोन H8111	הָלֹא क्या-नहीं H3808		

ऐसा क्यों होगा यह इसलिये होगा कि याकूब ने पाप किया है। क्योंकि इसाएल के वंश ने पाप किया है। याकूब से किसने पाप मानने से मना करवाया है वह तो शोमरोन है! यहूदा में और कौन ऊँचा स्थान है यह तो यरूशलेम है!

אֲבָנֵיהָ उस-के-पत्थर H0068	לְבֵי घाटी-में H1516	וְהַגְּרָתִי और-में-गिराऊंगा H5064	כָּרָם अंगूर H3754	לְמַטְעֵי रोपने-के-लिए H4302	הַשָּׂדֶה मैदान-के H5856	לְעֵי खंडहरों-के-ढेर H5856	שְׁמֵרוֹן शोमरोन-को H8111	וְשִׁמְרֹתָי और-में-बनाऊंगा H8111
							אֲנִלָּה: मैं-खोलूंगा H1540	וְיִסְרֵיהָ और-उस-की-नींवें H3247

इसलिये मैं शोमरोन को खाली मैदान के खण्डहरों का ढेर बनाऊँगा। वह ऐसा स्थान हो जायेगा जिसमें अंगूर लगाये जाते हैं। मैं शोमरोन के पत्थरों को घाटी में नीचे उखाड़ फेंकूँगा और मैं उसकी नीवों को बर्बाद करदूँगा!

וְכָל- और-सब- H3605	בְּאֵשׁ आग-में H0784	יִשְׂרְפוּ जलाई-जाएंगी H8313	אֶתְנִיחָהּ उस-की-वेश्या-का-दाम H0868	וְכָל- और-सब- H3605	יִכְתוּ तोड़ी-जाएंगी H3807	פְּסִילֶיהָ उस-की-मूर्तियां H6456	וְכָל- और-सब- H3605	
אֶתְנֵן वेश्या-के-दाम H0868	וְעַד- और-तक- H5704	קִבְצָהּ इकट्ठा-किया H6908	זִנְיָהּ वेश्या H2181	מֵאֶתְנֵן वेश्या-के-दाम-से H0868	כִּי क्योंकि H0868	שְׁמָמָה उजाड़ H0868	אֲשֵׁים मैं-बनाऊंगा H6091	עֲצָבֶיהָ उस-की-मूर्तियां H6091
							יִשׁוּבוּ: लौटेंगी H7725	זִנְיָהּ वेश्या-के H2181

उसके सारे मूर्ति टुकड़ों में तोड़ दिये जायेंगे। सारा धन, जो भी इसने कमाया है, आग से भस्म होगा और मैं इसके झूठे देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दूँगा क्योंकि शोमरोन से ये वस्तुएँ मेरे प्रति सच्चा न रहकर के पाई। सो ये सारी वस्तुएँ दूसरों के पास चली जायेंगी। ऐसे लोगों के पास जो मेरे प्रति सच्चे नहीं हैं।

מִסְפָּר विलाप H4553	אֶעֱשֶׂה मैं-करूँगा H6174	וְעָרוֹם और-नग्न H7758	שׁוֹלֵל ([लूटा-हुआ]) नंगा H7758	אֵילָכָה मैं-चलूँगा H3212	וְאֵילִיחָהּ और-मैं-रोऊँगा H3213	אֶסְפְּרָה मैं-विलाप-करूँगा H5594	זֶאת यह H2063	עַל- पर- H2063
				יַעֲנֶה: शुतरमुर्ग-के H3284	כִּבְנוֹת बेटियों-की-तरह H1323	וְאֶבֶל और-शोक H0060	כִּתְנִים गीदड़ों-की-तरह H0060	

मैं इस शीघ्र आने वाले विनाश के कारण व्याकुल होऊँगा और हाय—हाय करूँगा। मैं जूते न पहनूँगा और न वस्त्र धारण करूँगा। गीदड़ों के जैसे मैं जोर से चिल्लाऊँगा। मैं विलाप करूँगा जैसे शुतरमुर्ग करते हैं।

עַד- तक- H5704	עַמִּי मेरी-प्रजा-के H5704	שָׁעַר फाटक H8179	עַד- तक- H5704	נָגַע छुई H5060	יְהוּדָה यहूदा H3063	עַד- तक- H5704	בְּאֵה आई H0935	כִּי- क्योंकि- H0935	מִפּוֹתֶיהָ उस-के-घाव H4347	אֶנּוּשָׁה लाइलाज H0605	כִּי क्योंकि H0605
											יְרוּשָׁלַם: यरूशलेम H3389

शोमरोन का घाव नहीं भर सकता है। उसकी व्याधी (पाप) यहूदा तक फैल गया है। यह मेरे लोगों के नगर—द्वार तक पहुँच गया बल्कि यह यरूशलेम तक आ गया है।

הַתְּפִלָּה: लोटी H6428	הַתְּפִלָּה: [लोटी] H6428	עָפָר धूल-में H6083	לְעַפְרָהּ बेत-लेअफ्रा-में H1036	תִּבְכּוּ रोओ H1058	אֶל- मत- H0408	בְּכוֹ रोने-में H1058	תִּגְיְדוּ बताओ H5046	אֶל- मत- H0408	בְּגַת गत-में H1661
-------------------------------	---------------------------------	---------------------------	--	---------------------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------

इसकी बात गात की नगरी में मत करो। अको में मत रोओ। विलाप करो और बेत—आप्रा को मिट्टी में लोटों।

מִסְפָּר विलाप H5594	צָאֵן सानान-की H6630	יֹשְׁבֵת निवासी H3427	יִצְאָהּ निकली H3318	לֹא नहीं H3808	בְּשֵׁת लज्जा-में H1322	עֲרִיחָהּ नग्न- H6181	שְׁפִיר शापीर-की H8208	יֹשְׁבֵת निवासी H3427	לְכֶם तुम्हारे-लिए H3427	עֲבָרִי निकलो H3427
							עֲמִדָתוֹ: उस-की-जगह H5979	מִכֶּם तुम-से H3947	יִקַּח लेगी H3947	הָאֲזֻלָּבִית बेत-हाएसेल-का H1018

हे शापीर की निवासिनी, तू अपनी राह नंगी चली जा और लज्जाहीन हो कर चली जा। वे लोग, जो सानान के निवासी हैं, बाहर नहीं निकलेंगे। बेतेसेल के लोग रोये बिलखायेंगे और तुम से इसका सहारा लेंगे।

12 כִּי- קָלָה לְטוֹב יוֹשְׁבֵי מְרוֹת כִּי- יָרַד רָע מֵאֵת יְהוָה לְשַׁעַר

क्योंकि- मारोत-की निवासी भलाई-के-लिए दुखी-है क्योंकि-  
[H8179](#) [H3068](#) [H0854](#) [H3381](#) [H4796](#) [H3427](#)

יְרוּשָׁלַם :  
 यरूशलेम-के  
[H3389](#)

ऐसा वह व्यक्ति जो मारोत का निवासी है, सुसमाचार आने को बाट जोहता हुआ दुर्बल हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहोवा से नीचे यरूशलेम के नगर द्वार पर विपत्ती के उतरी है।

13 רָחֵם רָחֵם רָחֵם רָחֵם רָחֵם רָחֵם רָחֵם רָחֵם רָחֵם רָחֵם

जोत रथ  
[H6726](#) [H1323](#) [H1931](#) [H7225](#) [H3923](#) [H3427](#) [H7409](#) [H4818](#) [H7573](#)

בָּרַךְ נִמְצָאוּ פְּשָׁעֵי יִשְׂרָאֵל :  
 तुझ-में पाए-गए अपराध इसाएल-के  
[H3478](#) [H6588](#) [H4672](#)

हे लाकीश के निवासियों, तुम वेगवान घोड़ो को रथ में जोतो। सियोन के पाप लाकीश में शुरू हुए थे। क्यों क्योंकि तू इसाएल के पापों का अनुसरण करती है।

14 לָכֵן תַּתְּנִי שְׁלוֹחִים עַל גַּת מוֹרֶשֶׁת בְּתוּרָה אֲכֹזֵב לְאֹכֹזֵב לְמַלְכֵי יִשְׂרָאֵל :  
 इसलिए तू-देगी विदाई पर मोरेशेत-गत-को घराने अकजीब-के धोखा-होंगे राजाओं-के-लिए इसाएल-के  
[H3478](#) [H4428](#) [H0391](#) [H0392](#) [H4182](#) [H7964](#) [H5414](#)

सो तुझे गत में मोरेशेत को विदा के उपहार देने हैं। इसाएल के राजा को अकजीब के घराने छलेंगे।

15 עַד הַיָּרֵשׁ אָבִי לֵךְ יוֹשְׁבֵי מְרֵשָׁה עַד- עַד-לָם יְבוֹא קְבוּרָה יִשְׂרָאֵל :  
 फिर मैं-लाऊंगा उत्तराधिकारी तुझे निवासी मारेशा-की तक- अदुल्लाम आएगी महिमा इसाएल-की  
[H3478](#) [H3519](#) [H0935](#) [H5725](#) [H5704](#) [H4762](#) [H3427](#) [H0935](#) [H3423](#) [H5750](#)

हे मारेशा के निवासियों, तेरे विरुद्ध मैं एक व्यक्ति को लाऊँगा जो तेरी सब वस्तुओं को छीन लेगा। इसाएल की महिमा (परमेश्वर) अदुल्लाम में आयेगी।

16 כִּי קָרָתִי גְזָרְתִי וְגַם עַל- בְּנֵי תַעֲנִינִי הַרְחִבִי קְרָחָתִי כַּשֶּׁשׁ כִּי  
 क्योंकि गंजा-करो और-मुंडाओ पर- अपने-सुखदाई-के संतानों बढाओ अपना-गंजापन उकाब-की-तरह  
[H5404](#) [H7144](#) [H7337](#) [H8588](#)

וְגַם נָלִו מִמֶּנִּי :  
 वे-बंधी-बनाए-गए तुझ-से सेला  
[H1540](#)

इसलिये तू अपने बाल काट ले और तू गंजा बन जा। क्यों? क्योंकि तू अपने बच्चों के लिये जिनसे तू प्यार करता था रोये चिल्लायेगा और तू शोक दर्शाने के लिये गंजा गिद्ध बन जा। क्यों क्योंकि वे तुझको छोड़ने को और बाहर निकल जाने को विवश हो जायेंगे।